

...continued from previous page.

4. In case of non-receipt of the LoF, such Public Shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Open Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company and their folio number, DP identity-client identity, current address and contact details.
5. The Public Shareholders who tender their Equity Shares in this Open Offer shall ensure that the Equity Shares are clear from all liens, charges and encumbrances. The Offer Shares will be acquired, subject to such Offer Shares being validly tendered in the Open Offer, together with all the rights attached thereto, including all the rights to dividends, bonuses and right offers declared thereof and in accordance with the terms and conditions set forth in the PA, this DPS and as will be set out in the LoF, and the tendering Public Shareholders shall have obtained all necessary consents required by them to tender the Offer Shares on the foregoing basis.
6. A Public Shareholder may participate in the Offer by tendering the Equity Shares in the Offer as per the procedure mentioned in the LoF.
7. The Open Offer will be implemented by the Acquirer, subject to applicable laws, through the stock exchange mechanism made available by BSE and/or NSE in the form of a separate window ("Acquisition Window") as provided under the SEBI (SAST) Regulations and Master Circular. The detailed procedure for tendering and settlement of shares under the revised mechanism is specified in the Master Circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2023/31 dated 16 February 2023 ("SEBI Master Circular").
8. The Acquirer will appoint a broker for the Open Offer through whom the purchases and settlement of the Offer Shares tendered in the Open Offer shall be made. The details of the buying broker will be provided in the LoF.
9. Details of the designated stock exchange for the purpose of tendering the Offer Shares will be updated in the Letter of Offer.
10. All Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Open Offer will have to intimate their respective depository participants and stock brokers ("Selling Brokers") well in advance to understand the process and methodology in relation to tendering of the Equity Shares through the Stock Exchanges during the Tendering Period.
11. The separate Acquisition Window will be provided by BSE and/or NSE to facilitate placing of sell orders. The Selling Broker can enter orders for Equity Shares in dematerialized form.
12. The Selling Broker would be required to place an order/bid on behalf of the Public Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Open Offer using the Acquisition Window.
13. Before placing the order/bid, the Selling Broker will be required to mark a lien on the tendered Equity Shares. Details of such Equity Shares lien marked in the demat account of the Public Shareholders shall be provided by the depository to Indian Clearing Corporation Limited and National Securities Clearing Corporation Limited. The lien marked against unaccepted Equity Shares will be released, if any, to the respective shareholders demat account or would be returned by registered post or by ordinary post or courier (in case of physical shares) at the Public Shareholders' sole risk. Public Shareholders should ensure that their depository account is maintained till all formalities pertaining to the Open Offer are completed.
14. In terms of the SEBI Master Circular, Equity Shares tendered in the Open Offer shall be lien marked. Upon finalization of the entitlement, only the accepted quantity of Equity Shares will be debited from the demat account of the concerned Public Shareholder.

15. As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated 3 December 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository with effect from 1 April 2019. However, in accordance with the SEBI (SAST) Regulations and the SEBI Master Circular, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well as eligible to tender their Equity Shares in the Open Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders who wish to offer their physical Equity Shares in the Offer are requested to send their original documents as will be mentioned in the letter of offer to the Registrar to the Offer so as to reach them no later than the date of closure of the tendering period for the Open Offer. It is advisable to first email scanned copies of the original documents as will be mentioned in the letter of offer to the Registrar to the Offer and then send physical copies to the address of the Registrar to the Offer as will be provided in the letter of offer. The process for tendering the Offer Shares by the Public Shareholders holding physical Equity Shares will be separately enumerated in the LoF.
16. Public Shareholders may also: (i) download the Letter of Offer from the SEBI website (www.sebi.gov.in); or (ii) obtain a copy of the Letter of Offer by writing to the Registrar to the Open Offer superscribing the envelop "Bliss GVS Pharma Ltd – Open Offer" with suitable documentary evidence of ownership of the Equity Shares of the Target Company and their folio number, depository participant identity – client identity, current address and contact details.
17. Equity Shares shall not be submitted or tendered to the Manager, the Acquirer and/or the Target Company.
18. The cumulative quantity tendered shall be displayed on the websites of the Stock Exchanges throughout the trading session at specific intervals during the Tendering Period.
19. The detailed procedure for tendering the Equity Shares in the Open Offer will be available in the LoF, which is also expected to be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).
- X. OTHER INFORMATION**
1. The Acquirer and its directors accept full responsibility for the information contained in the PA and this DPS (other than as specified in paragraph 2 below).
2. The information pertaining to the Target Company contained in the PA or this DPS or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer has been compiled from information published or publicly available sources or provided by the Target Company. The information pertaining to the Sellers contained in the PA or this DPS or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer has been obtained from the Sellers. The Acquirer and the Manager do not accept any responsibility with respect to such information relating to the Target Company and the Sellers contained in the PA or this DPS or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer. The accuracy of such information has not been independently verified by the Acquirer and/or the Manager to the Offer.
3. The Acquirer and its directors accept full responsibility for their obligations under the Open Offer and shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of obligation under the SEBI (SAST) Regulations in respect of the Open Offer.
4. Unless otherwise stated, the information set out in this DPS reflects the position as of the date hereof.
5. In this Detailed Public Statement, all references to "₹" are references to Indian Rupee(s).

6. In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off and/or regrouping.
7. PA is available and this DPS will be available and accessible on the website of the Manager to the Open Offer at www.sbicaps.com and shall also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).
8. Pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has appointed SBI Capital Markets Limited as the Manager to the Open Offer, as per the details below:



SBI Capital Markets Limited
Address: 1501, 15th Floor, A & B Wing, Parinee Crescenzo Building, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India
Tel: +91 22 4006 9807
Email: blisgvs.openoffer@sbicaps.com
Website: www.sbicaps.com
Contact Person: Kritika Shetye/Aradhy Rajiyaguru
SEBI registration no.: INR00000351

9. The Acquirer has appointed MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) as the Registrar to the Open Offer, as per the details below:



MUFG Intime India Private Limited
(Formerly Link Intime India Private Limited)
Address: C-101, Embassy 247, L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, (Maharashtra), India
Tel: +91 810 811 4949
Fax: +91 22 49186060
Email: blisgvspharma.offer@in.mpm.mufg.com
Contact Person: Ms. Pradnya Karanjekar
SEBI registration no.: INR00004058

For and on behalf of the Acquirer

Signed for and on behalf of Anupam Rasayan India Limited (Acquirer)

Sd/-

Authorized Signatory

Place: Surat

Date: 30 May 2026

Adfactors 115/26



एसएमएफजी इंडिया फ्रेडिटेड कंपनी लिमिटेड
निर्वाहक अध्यक्ष : 10 मं, कार्यालय सं. 101, 102 एवं 103, 2 मं, एफ.ए. मेकर मोडेल्टी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, (प.प.), मुंबई - 400051

मॉग सूचना
वित्तीय परिचयपत्रों के प्रतिस्पर्धिक एवं वित्तीय विवरणों के संबंध में विवरण 2002 ("अभिव्यक्ति") और वित्तीय विवरण (प्रवर्तन) विवरण 2002 ("वित्तीय विवरण") के प्रावधानों के अंतर्गत

आधारस्थापकों में एसएमएफजी इंडिया फ्रेडिटेड कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया फ्रेडिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी के 15 मई 2026 को अंतर्गत और निम्न 3 के द्वारा जारी अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत प्रस्तुत सूचनाओं के प्रयोगकर्ता, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मॉग सूचनाएं/निवेदन की धारा में निर्दिष्ट निमित्तित्तीय सूचनाओं को संशोधित सूचनाओं में अंतर्गत सूचना का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर अधिनियम करने को कहा गया था। आधारस्थापकों सरकार मानते हैं कि एसएमएफजी (मॉग) जो है 3 मं सूचनाओं की प्राप्ति कर मूलतः करने के दावित्तीय से वाच रहे हैं, अतः उन तक सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना को निम्नलिखित के अनुसार संशोधित सूचनाएं/विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है और इन्हें इन्हें प्रकट किया जा रहा है। मॉग सूचनाओं की विवरणसूचक निम्न सूचना में विवरण है :-

उपरोक्त (ओं) के नाम	मॉग सूचना तिथि तथा राशि
1. राहुल अग्रवाल	22 मई 2026 ₹. 50,07,305.16/-
2. वैना अग्रवाल	(एकमे पचास लाख सात हजार तीन सौ पांच और सोलह पैसे मात्र) 07-04-2026 के अनुसार

बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के माहिक: राहुल अग्रवाल पुत्र अजित अग्रवाल, संपत्ति का विवरण: दो मंजिला आवासीय संपत्ति (मूलतः और प्रथम तल के साथ), जिसका खता नंबर 166 (1416 से 1421) है, जो खसरा नंबर 576 टीए का हिस्सा है। क्षेत्रफल - 167.29 वर्ग मीटर, जिसमें निर्मित क्षेत्र 164.94 वर्ग मीटर है, जो ग्राम बद्रिपुर, परगना पुरवाण, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड-248012 में स्थित है। सीमाएं: पूर्व - अन्य की संपत्ति, पश्चिम - 36 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर - अन्य की संपत्ति, दक्षिण श्री सत्य प्रकाश की संपत्ति।

1. श्री श्री डेवर्त	15 मई 2026 ₹. 1,02,65,285.32/-
2. विकास गुप्ता	(एकमे करोड़ दो लाख बीस हजार दो सौ पचासी और बीस पैसे मात्र)
3. अनीता गुप्ता	06-05-2026 के अनुसार

बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण

1. गाटा संख्या 856 में स्थित एक आवासीय प्लॉट का संपूर्ण टुकड़ा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर है, जो ग्राम काकोड देहात (नगर क्षेत्र से बाहर), परगना और तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएं: पूर्व - सड़क मुखा काकोड देहात मार्ग, पश्चिम - खेत नंबर 856 की शेष भूमि, उत्तर: शिव कुमार उर्फ मोले का प्लॉट, दक्षिण: भिजली घर। 2. गाटा संख्या 856एम में स्थित एक आवासीय प्लॉट का संपूर्ण टुकड़ा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 55.50 वर्ग गज यानी 46.40 वर्ग मीटर है, जो ग्राम काकोड देहात (नगर क्षेत्र से बाहर), परगना और तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएं: पूर्व - सड़क काकोड देहात, पश्चिम - खेत नंबर 856 रथाम सिंह और अन्य, उत्तर: विक्रता का प्लॉट जिसकी पड़ोसिय विक्री विवेक क्रोडा पत्र या शिव कुमार उर्फ मोले के पत्र में निष्पादित की गई है, दक्षिण: क्रोडा का 100 वर्ग गज का प्लॉट।

1. विकास	15 मई 2026 ₹. 41,57,625.33/-
2. विल्को	(एकमे इकालोत्तर लाख सत्तर हजार पचास और बीस पैसे मात्र)
दैनः	06-05-2026 के अनुसार

बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण

एक आवासीय घर का संपूर्ण टुकड़ा और पार्सल, जो प्लॉट नंबर बी-14 और 15 का हिस्सा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज यानी 126.415 वर्ग मीटर है, जिसमें से 50 वर्ग गज यानी 41.80 वर्ग मीटर क्षेत्र पट्टी से निर्मित है, जो खसरा नंबर 678एम, मनीष पार्क कॉलोनी, ग्राम पावी सादकपुर, परगना और तहसील लोनी, जिला गाण्डियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएं: पूर्व - प्लॉट नंबर बी-14 और 15 का शेष भाग, पश्चिम: 18 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: प्लॉट नंबर बी-13, दक्षिण: दीपक की संपत्ति।

1. हामी वर्त	15 मई 2026 ₹. 39,55,757.00/-
2. त्रिभु वर्त	(एकमे उन्नासतीस लाख पचास हजार सात सौ सातपान मात्र)
3. विप्रा वर्त	
4. मधु देवी	06-05-2026 के अनुसार

बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय प्लॉट नंबर 1 क्षेत्रफल 40.2 वर्ग मीटर और आवासीय प्लॉट नंबर 2 क्षेत्रफल 17.38 वर्ग मीटर, यानी कुल क्षेत्रफल 57.56 वर्ग मीटर, जो मूनि नगर 1208 का हिस्सा है, जो मोहल्ला कुशाग्र, जहांगीरपुर (नगर पंचायत क्षेत्र में), परगना और तहसील जेठ, जिला गीतना बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएं: प्लॉट नंबर 1: पूर्व - रत्नलाल का प्लॉट और सड़क, पश्चिम: गंदा नाला (सीवेज चैनल), उत्तर: 4 फीट की निजी सड़क, दक्षिण: प्रथम पक्ष का प्लॉट। प्लॉट नंबर 2: पूर्व - 15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: गंदा नाला (सीवेज चैनल), उत्तर: हरिकिशन शर्मा का प्लॉट, दक्षिण: हरिकिशन शर्मा का प्लॉट।

1. मोहित पुत्र महावीर सिंह	20 मई 2026 ₹. 81,45,904.00/-
2. प्रियंका पुत्री रवीश्री सिंह	(एकमे इकालोत्तर लाख बीसतीस हजार नौ सौ चार मात्र)
3. महावीर पुत्र जके सिंह	
दैनः	06-05-2026 के अनुसार

बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के माहिक: महावीर सिंह, संपत्ति का विवरण: 3 कमाल क्षेत्रफल की संपत्ति जो कि 15 कमाल 3 मरला कुल भूमि का 1/3वां हिस्सा है, जो खेत नंबर 165, खाता नंबर 177 (सीकान रामादेवी के अनुसार खेत नंबर 187, खाता नंबर 201) के अंतर्गत 7 डिग्री में शामिल है, जो ग्राम भावद, तहसील मोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में स्थित है। सीमाएं: पूर्व - राजेश का प्लॉट, पश्चिम: गली, उत्तर: गली, दक्षिण: राजेश और नरेश का प्लॉट।

आधारस्थापकों को संवाद दी जाती है कि वे मॉग सूचना का अनुमोदन करें और इसमें उल्लिखित मॉग सूचना का मूलतः इस प्रकटन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू, अर्थात्, अधिनियम का प्रकटन, लागू और अन्य के साथ मूलतः मॉग सूचना की तिथि तक करें। आधारस्थापकों द्वारा वे कि एसएमएफजी इंडिया फ्रेडिटेड कंपनी लिमिटेड को और आधारस्थापकों द्वारा प्राप्त अन्य सूचना आधारस्थापकों द्वारा प्रेषित सूचना में प्रतिकूल संपत्ति होने के कारण अचल संपत्ति/संपत्तियों के विवेक एवं प्रतिकूल रूप में।

यदि आधारस्थापकों निमित्तित्तीय सूचना के भीतर अपनी देवताओं का पूर्ण पत्र से निर्दिष्ट करने में विफल रहते हैं, तो एसएमएफजी इंडिया फ्रेडिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रतिकूल संपत्ति(ओं) पर कब्जा करने के लिए मॉग सूचनाओं का प्रयोग करने का हकदार होंगे, जिसमें विक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उक्त सूचनाएं/निवेदन करना और मूलतः प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह सूची तक सीमित नहीं है। एसएमएफजी इंडिया फ्रेडिटेड को विक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले अधिनियम संपत्तियों को उक्त करने और/या प्लॉट करने का भी अधिकार है। अधिनियम संपत्तियों को विक्री के बाद, एसएमएफजी इंडिया फ्रेडिटेड को कब्जा पत्र प्रेषित करने के लिए अस्म से कानूनी अंतर्देशीय मुक्त करने का भी अधिकार है, अगर निवेदन सूची में सूचित सूचना एसएमएफजी इंडिया फ्रेडिटेड को देना बर्बाद संपत्ति को बन करने के लिए अनिवार्य है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एसएमएफजी इंडिया फ्रेडिटेड के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

आधारस्थापकों का ध्यान अधिनियम की धारा 13(6) की और आरूपक किया जाता है, जिसमें प्रतिकूल परिचयपत्रों को मुनने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और अन्य अधिनियम की धारा 13(1) की और, जिसमें तहत आधारस्थापकों को एसएमएफजी इंडिया फ्रेडिटेड की पूर्ण लिखित सूचना के बिना प्रतिकूल परिचयपत्रों का निराकरण या उनसे निराकरण का विकल्प नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत सूचना के बिना अधिनियम के अधिनियम संपत्तियों को विक्री के बाद, एसएमएफजी इंडिया फ्रेडिटेड को कब्जा पत्र प्रेषित करने के लिए अस्म से कानूनी अंतर्देशीय मुक्त करने का भी अधिकार है, अगर निवेदन सूची में सूचित सूचना एसएमएफजी इंडिया फ्रेडिटेड को देना बर्बाद संपत्ति को बन करने के लिए अनिवार्य है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एसएमएफजी इंडिया फ्रेडिटेड के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

स्थान: सुरेंद्रगढ़/गाण्डियाबाद/सीनीपत/ देहरादून/जीतम बुद्ध नगर/दैनिक: 01-06-2026 एसएमएफजी इंडिया फ्रेडिटेड कंपनी लिमिटेड

SHRI KRISHNA PRASADAM LIMITED

B-2/11, Mohan Cooperative Industrial Estate, Badapur, New Delhi -110044
CIN: L70200DL2009PLC190708 | Website: <https://shrikrishnaprasadam.in/> |
Email: csskpl121@gmail.com | Phone: +91 98704 14164

Extract of Statement of Audited Financial Result for the Quarter And Year Ended March 31st, 2026

Sr. No.	Particular	Quarter Ended		Year Ended		
		31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from Operations (net)	5.08	-	-	21.58	-
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax & Exceptional Items	(2.94)	(4.11)	(1239.73)	(2.66)	(1275.59)
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax & Exceptional Items	(2.99)	(4.11)	(1239.55)	(2.72)	(1275.41)
4.	Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- each)	201.60	201.60	1010.00	201.60	1010.00
5.	Outstanding Debt	46.99	-	6.47	46.99	6.47
6.	Earnings per share (EPS) before Exceptional Items (Basic/Diluted)	(0.15)	(0.20)	(12.27)	(0.07)	(12.63)
7.	Earnings per share (EPS) after Exceptional Items (Basic/Diluted)	(0.15)	(0.20)	(12.27)	(0.07)	(12.63)

Note:
1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2026. The Statutory Auditor of the Company have carried out statutory audit of the aforesaid results.
2. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Result for the Last Quarter And Year Ended March 31st, 2026 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the Company's website (<https://shrikrishnaprasadam.in/>). The same can be accessed by scanning the QR Code.



For Shri Krishna Prasadam Limited
Sd/-
Gurjeet Kaur
(Company Secretary & Compliance Officer)

The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015

MIDLAND POLYMERS LIMITED

("MPL"/"TARGET COMPANY"/"TC") (Corporate Identification No. L62013TS1992PLC178971)
Registered Office: Plot.No.8-2-603/23/3 & 2-603/23, 15, 2nd Floor, HSR Summit, Banjara Hills, Road No.10, Hyderabad, Telangana, 500034;
Phone No.: +91-8125730447; Email Id: midland.polymers@gmail.com; Website: www.midlandpolymers.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors (ICD) on the Open Offer to the Shareholders of Midland Polymers Limited ("MPL" or the "Target Company") under regulation 26(7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations")

Date	29.05.2026
Name of the Target Company	Midland Polymers Limited
Details of the Offer pertaining to Target Company	Open Offer to acquire up to 97,50,000 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the expanded equity and voting share capital of the Target Company, to be acquired by the Acquirers, at a price of Rs. 10/- per equity share payable in cash in terms of Regulation 3(1) and Regulation 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
Name(s) of the Acquirers	Gayathri Boreddy (Acquirer-1); Jagannath Edla (Acquirer-2); Radha Krishna Avudari (Acquirer-3); Mahammad Aman Shaik (Acquirer-4) and Ravi Kiran Veeramalla (Acquirer-5)
Name of the Manager to the offer	Navigant Corporate Advisors Limited
Members of the Committee of Independent Directors ("ICD")	Chairperson: Mounika Pammi Member: Sreeram Athota Member: Shivashankar Reddy Gopavarapu
ICD Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any	ICD Members are the Independent Directors of the Target Company. Neither Chairperson nor Member of ICD holds any equity shares in the Target Company. None of them have entered into any other contract or have other relationship with the Target Company.
Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by ICD Members	No trading has been done by the ICD Members in the equity shares/ other securities of the Target Company.
ICD Member's relationship with the Acquirers and PAC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the ICD Members have any relationship with the Acquirers and PAC.
Trading in the Equity shares/other securities of the acquirers by ICD Members	Not Applicable
Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	The ICD Members believe that the Open Offer is fair and reasonable. However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision in the matter.
Summary of reasons for recommendation	ICD recommends acceptance of the Open offer made by the Acquirers as the Offer price of Rs. 10/- per fully paid-up equity share is fair and reasonable based on the following reasons: 1. The Offer price appears to be reasonable considering negative book value & negative profitability of the Company. 2. The offer price of Rs. 10/- per fully paid-up equity share offered by the Acquirers is equal to price paid by Acquirers for the preferential allotment. 3. The equity shares of the Target Company are infrequently traded shares within the meaning of explanation provided in Regulation 2(i) of SEBI (SAST) Regulations, 2011. 4. The offer price of Rs. 10/- per fully paid-up equity share offered by the Acquirers is more than fair value of equity share of the Target Company which is NIL as certified by Karan Chetan Shah, Chartered Accountants, Registered Valuer - Securities or Financial Assets, (IBBI Registration No.: IBBI/RV/06/2024/15561) having his office address at C 413, Satyam Apartment Link Road, Near Don Bosco School, Borivali West, Mumbai - 400091; Tel. No: +91 9136554490; Email: valuationrca@gmail.com vide valuation certificate dated March 27, 2026. (UDIN: 26190724WDIPK01595). Keeping in view above facts ICD is of opinion that Open Offer price is fair and reasonable and is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be justified.
Details of Independent Advisors, if any.	None
Any other matter to be highlighted	No
To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.	
For Midland Polymers Limited Mrs. Mounika Pammi Chairperson - Committee of Independent Directors DIN: 11111376	
Place: Hyderabad Date: 29.05.2026	

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR ATTENTION TO THE SHAREHOLDERS OF OXFORD INDUSTRIES LIMITED

("OXFORD"/"TARGET COMPANY"/"TC")
(Corporate Identification No.: L17112MH1989PLC023572)
Registered Office: 136-B, Ansa Industrial Estate, Saki Vihar Road, Sakinaka, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra, India, 400072.
Phone No.: +91223400434; Email Id: oxford_industries@yahoo.in; Website: www.oxfordfabrics.in

In compliance with Regulations 3 (1) and 4 read with Regulations 15 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011

This corrigendum to the detailed public statement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Saroj Kumar Choudhary (hereinafter referred to as "Acquirer") in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") and the SEBI Observation Letter dated May 26, 2026 in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 15,45,211 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the fully paid-up equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirer have appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratahlik - Marathi Daily (Mumbai edition) on 20th March, 2026.

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THAT THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO OFFER:

1. Update in the schedule of Activities: The original and revised schedule of activities is set forth as below:

Activity	Original Date	Revised Date	Original Day	Revised Day
Public Announcement	12.03.2026	Thursday	12.03.2026	Thursday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	20.03.2026	Friday	20.03.2026	Friday
Submission of Detailed Public Statement to BSE, Target Company & SEBI	20.03.2026	Friday	20.03.2026	Friday
Last date of filing draft letter of offer with SEBI	30.03.2026	Monday	30.03.2026	Monday
Last date for a Compelling offer	16.04.2026	Thursday	16.04.2026	Thursday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	23.04.2026	Thursday	26.05.2026	Tuesday
Identified date*	27.04.2026	Monday	29.05.2026	Friday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	05.05.2026	Tuesday	05.06.2026	Friday
Last date for revising the Offer Price	08.05.2026	Friday	10.06.2026	Wednesday
Comments from Committee of Independent Directors of Target Company	08.05.2026	Friday	10.06.2026	Wednesday
Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchange and Target Company	11.05.2026	Monday	11.06.2026	Thursday
Date of Opening of the Offer				